



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29072023-247710
CG-DL-E-29072023-247710

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 444]
No. 444]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 28, 2023/श्रावण 6, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 28, 2023/SHRAVANA 6, 1945

संस्कृति मंत्रालय
(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई 2023

सा.का.नि. 564 (अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पुस्तकालय और सूचना अधिकारी तथा वरिष्ठ पुस्तकालय और सूचना अधिकारी भर्ती नियम, 2018 उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में पुस्तकालय और सूचना अधिकारी के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .--- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पुस्तकालय और सूचना अधिकारी भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे उपाबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं, आदि --- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता – वह व्यक्ति

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति --- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति --- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1) पुस्तकालय और सूचना अधिकारी	02*(2023) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, अननुसचिवीय राजपत्रित, समूह 'क'	स्तर - 11 (67700-208700 रु.)	चयन	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाना है।

(11)

प्रोन्नति :

वेतन मैट्रिक्स (44900-142400 रु.) के स्तर 7 में से सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में नौ वर्ष नियमित सेवा की है, जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक डिग्री है और जिन्होंने पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के क्षेत्र में दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

टिप्पणी 1. इन नियमों की अधिसूचना की तारीख पर नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 में सहायक पुस्तकालय

और सूचना अधिकारी का पद धारित करने वाले व्यक्ति के लिए पात्रता सेवा सात वर्ष तक रहेगी।

टिप्पणी 2. जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है या प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा के अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्धसरकारी या कानूनी या स्वायत्त निकायों के अधीन ऐसे अधिकारी

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
 (ii) जिन्होंने अपने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 या समकक्ष पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है; या
 (iii) जिन्होंने अपने मूल काडर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 9 अथवा समकक्ष पदों पर सात वर्ष की नियमित सेवा की है; या
 (iv) जिन्होंने अपने मूल काडर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 अथवा समकक्ष पदों पर आठ वर्ष की नियमित सेवा की है; या
 (v) जिन्होंने अपने मूल/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 अथवा समकक्ष पदों पर नौ वर्ष की सेवा की है; और
 (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अहर्कताएं और अनुभव हैं ;

आवश्यक :

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री;
 (ii) केंद्रीय या राज्य सरकार अथवा स्वायत्त या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान या शैक्षणिक संस्था के अधीन किसी पुस्तकालय में पांच वर्ष का वृत्तिय अनुभव।

वांछनीय :

- (i) केंद्रीय या राज्य सरकार अथवा स्वायत्त या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान या शैक्षणिक संस्था के अधीन किसी पुस्तकालय में पुस्तकालय कार्यकलापों का कंप्यूटरीकरण में एक वर्ष का अनुभव
 (ii) पुरातत्वीय या धरोहर साहित्य विषयों से संबंधित मामलों में एक वर्ष का वृत्तिक अनुभव
 (iii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा

टिप्पणी 1. पोषक प्रवर्ग में ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति/आमेलन पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति अधिकारी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पणी 2. प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर ब्राह्म पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी 3. प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी : (1) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग-अध्यक्ष; (2) सचिव, संस्कृति मंत्रालय - सदस्य; और (3) महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण-	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

<p>सदस्य। विभागीय पुष्टिकरण समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :</p> <p>(1) सचिव, संस्कृति मंत्रालय - अध्यक्ष; (2) संयुक्त सचिव, संस्कृति मंत्रालय- सदस्य और (3) अपर महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण - सदस्य।</p>	
---	--

[फा. सं. जे-11012/10/2022-योजना]

एम. जेना, निदेशक (प्रशा.)

MINISTRY OF CULTURE

(Archaeological Survey of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the, 28th July 2023

G.S.R. 564(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Culture, Archaeological Survey of India, Library and Information Officer and Senior Library and Information Officer Recruitment Rules, 2018, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Library and Information Officer in the Archaeological Survey of India, Ministry of Culture, namely:-

1. Short title and Commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of Culture, Archaeological Survey of India, Library and Information Officer Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publications in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in the pay matrix.- The number of the posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualification etc.- The method of recruitment to the posts, age-limit, qualification and other matters relating thereto shall be as specified in column (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.- No person,-

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other ground for doing so, exempt any person from the operation to this rule.

5. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons in consultation with Union Public Service Commission.

6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedule Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
Library and Information Officer.	02* (2023) (*subject to variation dependent on workload).	General Central Service Non-Ministerial, Gazetted Group A.	Level-11 (Rs. 67700-208700).
Whether selection of non-selection Post	Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	

(5)	(6)	(7)
Selection Post	Not applicable	Not applicable

Whether age and qualifications prescribed for direct recruitment will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years for promotees	By promotion failing which by Deputation including Short Term Contract

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
<p>Promotion: Assistant Library and Information Officer in level-7 in the pay matrix(Rs.44900-142400) with nine years regular service, possessing at least Bachelor's degree in Library Science or Library and Information Science of a Recognised University or Institute and successfully completed training of two to four weeks in the field of Library and Information Science.</p> <p>Note 1:-The eligibility service shall continue to be seven years for the persons holding the post of Assistant Library and Information Officer in level-7 in the pay matrix on regular basis on the date of notification of these rules.</p> <p>Note 2:-Where juniors have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation (including short-term contract): Officers under the Central Government or State Government or Union territories or Universities or Recognised Research Institutions or</p>	<p>Departmental Promotion Committee consisting of: (1) Chairman or Member, Union Public Service Commission- Chairman; (2) Secretary, Ministry of Culture - Member; and (3) Director General, Archaeological Survey of India - Member.</p> <p>Departmental Confirmation Committee consisting of: (1) Secretary, Ministry of Culture – Chairman; (2) Joint Secretary, Ministry of Culture – Member; and (3) Additional Director General, Archaeological Survey of India – Member.</p>	<p>Consultation with the Union Public Service Commission is necessary.</p>

<p>Public Sector Undertakings or Statutory or Autonomous bodies:</p> <p>(A)(i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or Department; or</p> <p>(ii) with five years' regular service in posts in level-10 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or</p> <p>(iii) with seven years regular service in posts in level-9 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or</p> <p>(iv) with eight years regular service in posts in level-8 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or</p> <p>(v) with nine years regular service in posts in level-7 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) Possessing the educational qualifications and experience as under:</p> <p>Essential:</p> <p>(i) Master's degree in Library science or Library and Information Science of a Recognised University or Institute;</p> <p>(ii) Five years professional experience in a Library under Central or State Government or Union Territories or Autonomous or Statutory Organisation or Public Sector Undertaking/ or University or recognised Research or educational Institution.</p> <p>Desirable:</p> <p>(i) One year experience of computerising Library activities in a Library under the Central or State Government or Union territories or Autonomous or Statutory organisation or Public Sector Undertaking or University or recognised Research or educational Institution.</p> <p>(ii) One year professional experience in dealing with subjects relating to Archaeological or Heritage related literature.</p> <p>(iii) Diploma in Computer Application</p>		
--	--	--

<p>from a recognised University or Institute.</p> <p>Note 1:-The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2 :-The period of deputation (Including short term contract) including the period of deputation (Including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.</p> <p>Note 3:-The maximum age limit for appointment by deputation (Including short term contract) shall not exceeding fifty six years as on the last date of receipt of applications.</p>		
---	--	--

[F. No. J-11012/10/2022-Planning]

M. JENA, Director (Admn.)